



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़ 1932 (श0)
(सं0 पटना 452) पटना, बुधवार, 7 जुलाई 2010

कार्यालय : जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा

कार्यालय - आदेश

24 अप्रील 2010

सं0 788—अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर 2007 में लिये गये निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, अनुकम्पा समिति, नवादा का कार्यवाही पत्रांक 183/स्था०, दिनांक 06 मार्च 2008 के पर्याप्त अनुशंसा, स्थापना उप—समाहर्ता, नवादा का पत्रांक 66/स्था०, दिनांक 12 मार्च 2009 क्षेत्रीय उप—शिक्षा निदेशक मगध प्रमण्डल गया का पत्रांक 521, दिनांक 05 जुलाई 2008 एवं जिला पदाधिकारी, नवादा का ज्ञापांक : 220/स्था०, दिनांक 26 मार्च 2010 एवं जिला स्थापना, उप—समाहर्ता, नवादा का पत्रांक 282, स्थापना दिनांक 22 अप्रील 2010 के अनुशंसा एवं आदेशानुसार श्री सुधीर कुमार, पिता—स्व० लखन प्रसाद यादव, उच्च विद्यालय सुघड़ी (नवादा) ग्राम थाली बाजार, पो०—सुघड़ी, थाना—गोविन्दपुर, जिला नवादा को वेतनमान रु0 3050—75—3950—80—4590 एवं सरकार द्वारा समय—समय पर देय भत्ते के साथ अनुकम्पा के आधार पर उच्च विद्यालय, पाण्डेय गंगौट (नवादा) में लिपिक के रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के साथ नियुक्ति कर पदस्थापित किया जाता है :—

1. योगदान के लिए किसी प्राकर का यात्रा—भत्ता देय नहीं होगा।
2. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रमाण—पत्र देना होगा।
3. नियुक्ति—पत्र प्राप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय में योगदान करना होगा।

4. दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी एक शपथ-पत्र समर्पित करना होगा, जो कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय में निष्पादित है। शपथ-पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि विवाहित होने की स्थिति में पति/पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं करेंगे।

5. यह नियुक्ति बिलकुल अस्थायी नियुक्ति है। नियुक्ति के उपरान्त यदि कभी भी आपके द्वारा समर्पित शैक्षणिक योग्यता का अन्य प्रमाण-पत्रों में कोई धोखाधड़ी या जालसाजी पाई गई तो आपको सरकारी सेवा से वर्खास्त कर आपके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर किया जायेगा।

6. योगदान उपरान्त एक वर्ष के अन्दर किसी भी समय टंकण तथा कम्प्यूटर योग्यता की जांच की जायगी, जिसमें क्षमता संतोषप्रद पाये जाने पर ही वार्षिक वेतन-वृद्धि देय होगा।

7. किसी भी अपराधिक मुकदमा अथवा वाद में संलिप्तता नहीं है। इस आशय का एक शपथ-पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के कार्यालय में निष्पादन हेतु देना होगा।

8. नियुक्ति के उपरान्त आप पर बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 लागू होगी।

9. योगदान के समय सभी प्रमाण-पत्र मूल रूप में समर्पित करना होगा।

आदेश से,

(ह0)—अस्पष्ट,

जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 452-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>